



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2013/माघ 8, 1934

No. 23]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2013/MAGHA 8, 1934

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2012

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

[ 2011-2012 ]

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के लिए

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई,

पटना और चंडीगढ़

1. हमने 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद् के संलग्न तुलनपत्र की और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उससे संलग्न आय और व्यय लेखा की भी लेखा परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण संस्था के प्रबंध-मंडल की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित राय व्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से योजना बनाकर करें कि जिससे समुचित रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण तात्त्विक रूप से गलत विवरणों से मुक्त हों। लेखा परीक्षा के अंतर्गत, परीक्षण के आधार पर, ऐसे साक्ष्य की परीक्षा करना है जो वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करते हों। लेखा परीक्षा में प्रबंध-मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना और साथ ही प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन

करना भी है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करेगी।

3. निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है :-

अनुसूची 18 का टिप्पण सं. 4 तारीख 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार प्रोद्घवन आधार पर, 1,36,74,790/- रुपए की रकम की पेंशन निधि की देनदारी के लिए प्रावधान की कमी के संबंध में है।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, हमारा यह कथन है कि :-

(क) हमने वे सभी जानकारीयां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

(ख) हमारी राय में, परिषद् में, विधि द्वारा यथाअपेक्षित, समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से दर्शित होता है ; और

(ग) इस रिपोर्ट में बताई गई वित्तीय स्थिति का विवरण और आय-व्यय लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है।

5. ऊपर पैरा (3) में अन्तर्विष्ट मद, जिसकी ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है, और आस्तियों, देनदारियों के मूल्य, आय और व्यय की मात्रा और समायोजन के पारिणामिक प्रभाव के अधीन रहते हुए, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखाकरण नीतियों और उन पर टिप्पणों के साथ पठित उक्त लेखा :-

(क) तुलनपत्र की दशा में 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार संस्था की गतिविधियों का ; और

(ख) आय और व्यय लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त वर्ष में बचत का भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और सत्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन000038एन

ह0/-

(एम. पी. ठाकुर)

भागीदार

एम. नं. 052473

## भारतीय विधिज्ञ परिषद्

## तुलनपत्र

(31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार)

	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2012 को रुपए	31 मार्च, 2011 को रुपए
<b>निधियों के स्रोत :</b>			
मुख्य निधि	1	9,08,87,401	7,83,93,165
आवंटित निधि	2	12,27,99,186	10,64,60,501
आस्तियां निधि (सहायता अनुदान)	3	2,85,77,909	3,04,55,484
ऋण एवं अग्रिम		20,00,000	20,00,000
संबद्ध संस्थाओं से प्रतिभूति निक्षेप		7,74,00,000	7,25,00,000
	<b>योग</b>	<b>32,16,64,496</b>	<b>28,98,09,150</b>
<b>निधियों का उपयोजन :</b>			
स्थिर आस्तियां	4		
शुद्ध ब्लाक		4,44,42,026	61,31,326
पूँजी कार्य प्रगति/भवन निर्माण	5	-	3,11,63,287
आवंटित निवेश	6	12,27,99,185	10,64,60,501
अन्य निवेश			
अनुसूचित बैंकों में जमा रकम	7	15,40,60,232	13,09,16,833
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	8	10,74,09,261	6,48,45,138
घटाइए: चालू दायित्व और प्रावधान		2,52,33,208	1,74,57,935
शुद्ध चालू आस्तियां		8,21,76,053	4,73,87,203
घटाइए: अग्रिम रूप में प्राप्त निरीक्षण फीस		8,18,20,000	3,22,50,000
		3,56,053	1,51,37,203
	<b>योग</b>	<b>32,16,64,496</b>	<b>28,98,09,150</b>
लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पण	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखा के अभिन्न अंग हैं।  
सम संख्यांक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.  
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स  
एफआरएन000038एन

ह0/-

(एम. पी. ठाकुर)

भागीदार

एम.न. 052473

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 28 सितंबर, 2012

ह0/-

लेखाकार-सह-  
सहायक सचिव  
भा.वि.प.

ह0/-

लेखा अधिकारी-सह-  
सहायक सचिव .  
भा.वि.प.

ह0/-

सचिव  
भा.वि.प.

ह0/-

अध्यक्ष  
भा.वि.प.

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

**भारतीय विधिज्ञ परिषद्**  
**आय और व्यय लेखा**  
**(31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार)**

	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2012 को रुपए	31 मार्च, 2011 को रुपए
<b>आय :</b>			
फीस	10	90,70,351	1,25,30,798
परीक्षा फीस	11	4,14,85,900	2,90,96,637
निरीक्षण फीस		3,28,25,000	1,83,35,000
सहायता अनुदान		6,00,000	1,88,100
भवन लाइसेंस फीस		-	12,46,667
ब्याज	12	1,28,15,274	1,00,49,449
अन्य आय		6,98,541	35,178
<b>योग</b>		<b>9,74,95,066</b>	<b>7,14,81,829</b>
<b>व्यय :</b>			
वेतन और भत्ते	13	2,21,74,484	1,38,92,846
स्थापन और अन्य भत्ते	14	1,22,04,343	1,67,63,220
परिषद् की गतिविधियां और बैठक व्यय	15	1,66,67,221	1,46,71,959
परीक्षा व्यय	16	3,20,78,385	2,29,93,615
विधि शिक्षा निदेशालय पर व्यय	17	12,30,863	29,42,430
विधि पुस्तकों का दान		1,90,000	1,90,000
अवक्षयण		34,72,392	12,63,329
घटाइए: आस्तियां निधि अनुदान से अंतरित रकम		18,77,575	15,94,817
<b>योग</b>		<b>8,61,40,113</b>	<b>7,26,46,049</b>
घटाइए: कल्याण निधि से प्रशासन		11,39,284	15,88,502
व्यय के लिए वसूली		8,50,00,829	7,10,57,547
[देखिए 4(ii)(ख) अनुसूची-18]			
मुख्य निधि से अंतरित वर्ष की		1,24,94,237	4,24,281
बचत/कमी			

लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पण  
 अनुसूची 1 से 18 लेखा के अभिन्न अंग हैं।  
 सम संख्यांक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
 कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 एफआरएन000038एन

ह0/-  
 (एम. पी. ठाकुर)  
 भागीदार

एम.न. 052473  
 स्थान : नई दिल्ली  
 तारीख : 28 सितंबर, 2012

ह0/-  
 लेखाकार-सह-  
 सहायक सचिव  
 भा.वि.प.

ह0/-  
 लेखा अधिकारी-सह-  
 सहायक सचिव  
 भा.वि.प.

ह0/-  
 सचिव  
 भा.वि.प.

ह0/-  
 अध्यक्ष  
 भा.वि.प.

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

## भारतीय विधिज्ञ परिषद्

## अनुसूची - 1

## मुख्य निधि

	31 मार्च, 2012 को रुपए	31 मार्च, 2011 को रुपए
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार अतिशेष	7,83,93,165	7,79,68,883
जोड़िए : वर्ष की बचत/कमी	1,24,94,237	4,24,281
योग	<u>9,08,87,401</u>	<u>7,83,93,165</u>

## भारतीय विधिज्ञ परिषद्

## अनुसूची - 2

## आबंटित निधियां

	31 मार्च, 2012 को रुपए	31 मार्च, 2011 को रुपए
(i) कल्याण निधि		
01 अप्रैल, 2011 को अतिशेष	7,65,93,637	
घटाइए : विविध लेनदार - भा.वि.प.	12,11,231	7,53,82,406
जोड़िए :		6,57,93,430
राज्य विधिज्ञ परिषद् से अभिदाय	56,96,420	79,42,510
प्राप्त ब्याज	55,24,140	48,52,678
प्रकीर्ण प्राप्तियां	1,22,000	36,000
घटाइए :	<u>1,13,42,560</u>	<u>1,28,31,188</u>
अधिवक्ताओं को सहायता	16,31,000	16,51,000
बैंक प्रभार	7,590	2,710
प्रशासन व्यय(आय और व्यय लेखानुसार)	11,39,284	85,64,686
विधि लेनदार - भा.वि.प.	<u>7,03,117</u>	<u>15,88,502</u>
	8,46,50,209	95,88,976
		12,11,231
		<u>7,65,93,637</u>
(ii) भविष्य निधि		
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार	64,78,639	61,43,563
जोड़िए : कर्मचारियों का चंदा	4,85,300	4,71,214
कर्मचारियों का स्वैच्छिक चंदा	7,60,500	7,14,000
प्राप्त ब्याज	4,26,069	4,03,197
	<u>81,50,508</u>	<u>77,31,974</u>
घटाइए : वर्ष के दौरान संदाय	(-) 13,92,807	67,57,701
		12,53,335
		64,78,639
(iii) उपदान निधि		
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार	50,65,545	54,95,838
जोड़िए : वर्ष 2011-2012 के लिए परिषद् से		4,32,039

396 GI/13-2

प्राप्त रकम				
प्राप्त ब्याज	3,30,640		2,49,283	
घटाइए : सदस्यों को संदाय	(-) 9,97,612	43,98,573	11,11,615	50,65,545
(iv) पेंशन निधि				
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार	1,83,22,681		1,64,47,681	
जोड़िए : अभिदाय/प्रावधान [देखिए अनुसूची 18 का टिप्पण सं.(4)]	84,54,468		17,91,214	
जोड़िए : प्राप्त ब्याज	15,67,565		10,48,458	
	2,83,44,714		1,92,87,353	
घटाइए : पूर्व सदस्यों/आश्रितों को संदाय	13,52,011	2,69,92,703	9,64,672	1,83,22,681
योग		12,27,99,186		10,64,60,501

भारतीय विधिज्ञ परिषद्  
अनुसूची - 3  
आस्तियां निधि (सहायता अनुदान)

	31 मार्च, 2012 को रुपए	31 मार्च, 2011 को रुपए
1 अप्रैल, 2011 को अतिशेष	3,04,55,484	1,78,26,834
जोड़िए : विधि और न्याय मंत्रालय		
विधि कार्य विभाग, भारत सरकार	-	1,27,00,000
नई दिल्ली, से प्राप्त सहायता अनुदान		
	3,04,55,484	3,05,26,834
घटाइए : वर्ष की अवक्षयण रकम	18,47,575	71,350
योग	2,85,77,909	3,04,55,484

भारतीय विधिज्ञ परिषद्  
अनुसूची - 4 (भाग - क)  
स्थिर आस्तियां - स्वयं की निधियां

क्र. सं.	विशिष्टियां	अवक्षयण की दर (% वार्षिक)	सकल ब्लाक					अवक्षयण				(रकम रुपए में)	
			01, अप्रैल, 2011 को	संवर्धन/ अपवर्धन	विक्रय/ विनिमय/ समायोजन	31 मार्च, 2012 को	01 अप्रैल, 2011 को	वर्ष 2011- 2012 के लिए	अवक्षयण समायोजित	31 मार्च, 2012 को	शुद्ध ब्लाक 31 मार्च, 2012 को	01 अप्रैल, 2011 को	
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)	(9)=(4)-(8)	(10)	
1.	भूमि	-	42,030	-	-	42,030	-	-	-	-	42,030	42,030	
2.	भवन	10%	1,50,47,055	26,71,998	-	1,77,19,053	1,22,95,368	4,08,769	-	1,27,04,137	50,14,916	27,51,687	
3.	लिफ्ट	15%	6,95,362	-	-	6,95,362	6,78,558	2,520	-	6,81,078	14,284	16,804	
4.	फर्नीचर और फिटिंगें	10%	13,70,440	23,62,056	-	37,32,496	7,42,301	1,95,533	-	9,37,834	27,94,662	6,28,139	
5.	बिजली की फिटिंगें	10%	3,01,178	9,59,449	-	12,60,627	2,19,882	66,451	-	2,86,333	9,74,294	81,296	
6.	कार्यालय उपस्कर	15%	6,11,345	28,250	-	6,39,595	3,81,171	36,645	-	4,17,816	2,21,779	2,30,174	
7.	एयर कंडीशनर/कूलर	15%	4,31,118	46,35,577	-	50,66,695	3,36,648	3,61,838	-	6,98,486	43,68,209	94,470	
8.	रेफ्रिजरेटर/गैस	15%	34,480	-	-	34,480	21,883	1,890	-	23,773	10,707	12,597	
9.	कार्यालय साइकिल	15%	5,231	-	-	5,231	2,019	482	-	2,501	2,730	3,212	
10.	पुस्तकें और प्रकाशन	100%	1,22,927	-	-	1,22,972	1,22,972	-	-	1,22,972	-	-	
11.	डी.जी. सेट	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	कम्प्यूटर	60%	16,63,022	95,978	-	17,59,000	13,24,584	2,53,150	-	15,77,734	1,81,266	3,38,438	
13.	वाटर कूलर	15%	1,10,948	-	-	1,10,948	51,975	8,846	-	60,821	50,127	58,973	
14.	ट्रांसफार्मर	15%	10,69,846	-	-	10,69,846	9,20,688	22,374	-	9,43,062	1,26,784	149,158	
15.	अग्निशमन उपस्कर	15%	13,66,550	5,47,138	-	19,13,688	11,33,611	75,976	-	12,09,587	7,04,101	2,32,939	
16.	डिजिटल कैमरा	15%	11,850	-	-	11,850	3,931	1,188	-	5,119	6,731	7,919	
17.	सी.सी.टी.वी.	15%	-	80,737	-	80,737	-	6,055	-	6,055	74,682	-	
18.	इन्वेंट्री कार	15%	12,00,788	-	-	12,00,788	1,80,118	1,53,100	-	3,33,218	8,67,570	10,20,670	
	योग भाग (क)		2,40,84,215	1,13,81,183	-	3,54,65,398	1,84,15,710	15,94,817	-	2,00,10,527	1,54,54,871	56,68,505	
	पूर्व वर्ष		2,23,50,340	17,33,875	-	2,40,84,215	1,72,23,731	11,91,979	-	1,84,15,710	56,68,505		

**भारतीय विधिज्ञ परिषद्**  
**अनुसूची - 4 (भाग - ख)**  
**स्थिर आस्तियां - (सहायता अनुदान)**

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	अवक्षयण की दर (% वार्षिक)	सकल ब्लाक			अवक्षयण				शुद्ध ब्लाक	
			01, अप्रैल, 2011 को	परिवर्धन/ अपवर्धन	31 मार्च, 2012 को	01 अप्रैल, 2011 को	वर्ष 2011-2012 के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
			(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)-(6)	(8)
1.	भवन नवीनीकरण	10%	4,10,297	2,22,55,685	-	1,28,866	11,40,927	-	12,69,793	2,13,96,189	2,81,431
2.	फर्नीचर और फिटिंगें	10%	1,84,625	-	1,84,625	69,444	11,518	-	80,962	1,03,663	1,15,181
3.	एयर कंडीशनर/कूलर	15%	1,05,746	31,89,383	-	51,321	2,47,368	-	2,98,689	29,96,440	54,425
4.	पुस्तकें और प्रकाशन	100%	2,86,904	-	2,86,904	2,86,904	-	-	2,86,904	-	-
5.	कंप्यूटर	60%	5,68,674	4,10,000	-	5,56,890	2,50,070	-	8,06,960	1,71,714	11,784
6.	विद्युत फिटिंगें	10%	-	45,53,841	-	-	2,27,692	-	2,27,692	43,26,149	-
	योग (ख)		15,56,246	3,04,08,909	-	10,93,425	18,77,575	-	29,71,000	2,89,94,155	4,62,821
	पूर्व वर्ष		15,56,246	-	-	10,22,075	71,350	-	10,93,425	4,62,821	-
	योग (क+ख)		2,56,40,461	4,17,90,092	-	1,95,09,135	34,72,392	-	2,29,81,527	4,44,49,026	61,31,326
	पूर्व वर्ष		2,39,06,586	17,33,875	-	1,82,45,806	12,63,329	-	1,95,09,135	61,31,326	56,60,780

**अनुसूची - 5**

पूँजी कार्य प्रगति पर (भवन नवीनीकरण)	3,11,63,287	5,18,492	3,92,81,779	-	-	-	शून्य
--------------------------------------	-------------	----------	-------------	---	---	---	-------

\* स्थिर आस्तियां अनुदान निधि 2,99,98,909/- रुपए और स्थिर आस्तियां स्वयं की निधियां 92,82,870/- रुपए अंतर्गत की गई।



## भारतीय विधिज्ञ परिषद्

## अनुसूची - 6

## आबंटित निवेश

	31 मार्च, 2012 को रुपए	31 मार्च, 2011 को रुपए
(i) कल्याण निधि निवेश		
यूको बैंक खाता सं. 9363 में अतिशेष	9,14,684	3,40,704
यूको बैंक में सावधिक जमा	3,04,19,329	3,04,19,329
सेन्ट्रल बैंक में सावधिक जमा	35,27,418	35,27,418
भारतीय स्टेट बैंक में सावधिक जमा	1,41,40,786	1,33,65,553
सिंडिकेट बैंक में सावधिक जमा	1,86,27,655	1,66,27,655
इलाहाबाद बैंक में सावधिक जमा	73,62,184	64,60,789
उद्धृत ब्याज	91,41,146	53,60,883
विविध देनदार - भा.वि.प.	5,17,007	4,91,306
	8,46,50,209	7,65,93,637
(ii) भविष्य निधि निवेश		
यूको बैंक बचत खाता सं. 261025 में अतिशेष	10,47,501	14,06,394
यूको बैंक में विशेष जमा	11,90,217	11,90,217
यूको बैंक में सावधिक जमा रसीदें	17,55,548	17,55,548
सिंडिकेट बैंक में सावधिक जमा	19,75,651	14,75,651
भविष्य निधि ऋण	2,46,212	3,61,442
उद्धृत ब्याज	5,20,480	2,67,295
भारतीय विधिज्ञ परिषद् से शोध्य	22,092	22,092
	67,57,701	64,78,639
(iii) उपदान निधि निवेश		
यूको बैंक बचत खाता सं. 440 में अतिशेष	1,58,408	10,90,728
यूको बैंक में विशेष जमा	3,18,433	3,18,433
यूको बैंक में सावधिक जमा	34,33,927	34,33,927
उद्धृत ब्याज	4,68,005	2,02,657
भारतीय विधिज्ञ परिषद् से शोध्य	19,800	19,800
	43,98,573	50,65,545
(iv) पेंशन निधि निवेश		
केनरा बैंक बचत खाता सं. 19116 में अतिशेष	10,42,801	4,14,240
सिंडिकेट बैंक में सावधिक जमा	38,00,000	38,00,000
सेंट्रल बैंक में सावधिक जमा	36,89,533	36,89,533
केनरा बैंक में सावधिक जमा	73,42,830	58,63,701
इलाहाबाद बैंक में सावधिक जमा	5,39,838	5,39,838
यूको बैंक में सावधिक जमा	13,07,011	13,07,011
विविध देनदार - भा.वि.प.	78,01,568	-
उद्धृत ब्याज	13,93,502	13,68,943
भारतीय विधिज्ञ परिषद् से शोध्य (टीडीएस)	75,620	12,47,600
विविध देनदार-सिंडिकेट बैंक	-	91,815
	2,69,92,703	1,83,22,681
	12,27,99,185	10,64,60,501
योग		

396 GI/13-3

**भारतीय विधिज्ञ परिषद्**  
**अनुसूची - 7**  
**अन्य निवेश**

	31 मार्च, 2012 को रुपए	31 मार्च, 2011 को रुपए
<b>(क) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के लिए बैंकों में सावधि जमा</b>		
इलाहाबाद बैंक	1,00,27,388	92,05,547
सेंट्रल बैंक	74,14,961	74,14,961
केनरा बैंक	2,02,75,485	1,57,38,189
यूको बैंक	1,11,88,768	1,11,88,768
सिंडीकेट बैंक	1,53,96,500	73,96,500
भारतीय स्टेट बैंक	49,85,783	32,85,783
	<u>6,92,88,885</u>	<u>5,42,29,748</u>
<b>(ख) विधि महाविद्यालयों से प्रतिभूति निक्षेप (संबद्धता) के लिए</b>		
केनरा बैंक	2,20,61,592	1,84,63,639
सेंट्रल बैंक	72,44,878	72,44,878
यूको बैंक	1,23,83,260	1,23,83,260
भारतीय स्टेट बैंक	1,00,07,368	1,17,07,368
सिंडीकेट बैंक	2,07,81,700	1,50,81,700
इलाहाबाद बैंक	1,22,92,549	1,18,06,240
	<u>8,47,71,347</u>	<u>7,66,87,085</u>
योग	<u><u>15,40,60,232</u></u>	<u><u>13,09,16,833</u></u>

**भारतीय विधिज्ञ परिषद्**  
**अनुसूची - 8**  
**चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम**

	31 मार्च, 2012 को रुपए	31 मार्च, 2011 को रुपए
<b>चालू आस्तियां</b>		
(क) लागत पर पुस्तकों का स्टॉक (प्रबंध मंडल द्वारा यथाप्रमाणित)	4,39,566	89,625
<b>(ख) नकद और बैंक अतिशेष</b>		
नकद हाथ में (16664+35266.25)	51,930	1,11,066
केनरा बैंक- 31050	3,94,71,927	82,33,378
यूको बैंक - 132	24,12,347	11,96,749
केनरा बैंक - 31065(एलईएफ)	75,40,181	18,10,368
केनरा बैंक-31313(अनुदान)	4,909	6,04,909
केनरा बैंक-31467 (एआईबीई)	1,97,29,955	97,12,495
सिंडीकेट बैंक-24171010000239 (अनुदान)	4,55,505	80,05,733
सिंडीकेट बैंक-24171010000258 (डीएलई)	1,19,909	8,65,882
विभिन्न राज्यों के अनुसूचित बैंकों के बचत खाते में	1,41,30,482	1,17,74,707
	8,39,17,145	4,23,15,287
<b>(ग) प्राप्य रकम</b>		
(i) निवेशों पर उद्धृत ब्याज	1,59,32,103	1,36,31,305
(ii) राज्य विधिज्ञ परिषदों से	81,314	81,314
(iii) विविध देनदार-न्यास	72,394	56,633
(iv) विविध देनदार-कल्याण निधि	7,03,117	12,11,231
(v) प्राप्य रकम- बार एसोसिएशन	-	1,03,000
(vi) प्राप्य रकम - बैंक	-	7,86,667
(vii) प्राप्य रकम - ठेकेदार	-	1,34,226
	1,67,88,928	1,60,04,376
<b>(घ) ऋण और अग्रिम</b>		
(i) स्टाफ को ऋण (आवासन, विवाह, शिक्षा और अन्य)	7,20,751	7,67,475
(ii) अग्रिम - सदस्य	2,70,217	4,42,028
- स्टाफ	3,26,149	2,53,370
- अन्य	54,940	91,940
(iii) पूर्व संदत्त व्यय	1,49,203	79,146
(iv) पूर्व संदत्त व्यय उपदान निधि अंशदान	-	4,32,039
(v) प्रतिभूति निक्षेप (विद्युत और अन्य)	12,30,417	12,30,417
(vi) प्रतिभूति निक्षेप - कार्यालय का किराया	20,40,550	20,40,550
(vii) सावधिक जमा से ब्याज पर टी.डी.एस.	14,71,395	10,98,885
	62,63,622	64,35,850
	10,74,09,261	6,48,45,138

**भारतीय विधिज्ञ परिषद्**  
**अनुसूची - 9**  
**चालू दायित्व और प्रावधान**

	31 मार्च, 2012 को रुपए	31 मार्च, 2011 को रुपए
संदेय उपदान निधि अंशदान	43,355	-
संदेय पेंशन निधि अंशदान	78,01,568	-
अनुशासन समिति जमा फीस	15,92,765	11,47,765
विधि मंत्रालय से अप्रयुक्त सहायता-अनुदान	-	6,00,000
कल्याण निधि को देय	5,17,007	4,91,306
पेंशन निधि को देय	75,620	12,47,600
अग्रिम धन (ठेकेदार)	2,00,000	2,00,000
प्रतिभूति निक्षेप (ठेकेदार)	15,63,160	8,04,567
संदेय किराया	10,20,275	10,20,275
विविध लेनदार -एआईबीई-1(एसटीबीसी)	36,12,100	22,28,900
विविध लेनदार - रेनमेकर	-	5,88,658
विविध लेनदार - अन्य	1,54,106	1,85,955
उपदान निधि को देय	19,800	19,800
भविष्य निधि को देय	22,092	22,092
समान पहचानपत्र संख्यांक के लिए अग्रिम फीस	9,43,200	7,74,200
संदेय बिल (51,50,000/-रुपए का शुद्ध अग्रिम)	-	81,26,817
लेबर सैस	3,72,470	-
विविध लेनदार (आर्किटेक्ट और ठेकेदार)	68,75,595	-
संदेय टी.डी.एस. (ठेकेदार)	2,30,496	-
संदेय टी.डी.एस.(डी-वैट)	1,89,599	-
<b>योग</b>	<b>2,52,33,208</b>	<b>1,74,57,935</b>

**अनुसूची - 10**  
**फीस**

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
<b>I. अधिवक्ताओं से फीस</b>		
नामांकन फीस	76,16,663	1,07,86,959
सदस्यता स्थानांतरण फीस	6,68,020	7,72,375
पुनरारंभ विधि व्यवसाय फीस	20,500	36,475
	<b>83,05,183</b>	<b>1,15,95,809</b>
<b>II. अन्य फीस</b>		
अनुशासनात्मक कार्यवाही फीस	1,04,920	1,12,825
पुनरीक्षण फीस	39,440	37,860
विधि शिक्षा प्ररूप आवेदन फीस	5,56,300	7,25,000
प्रकीर्ण फीस	64,508	59,304
	<b>7,65,168</b>	<b>9,34,989</b>
<b>योग I. II.</b>	<b>90,70,351</b>	<b>1,25,30,798</b>

## भारतीय विधिज्ञ परिषद्

## अनुसूची - 11

## परीक्षा फीस

	चालू वर्ष	(रुपए में) पूर्व वर्ष
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा फीस - I		2,90,46,637
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा फीस- II	1,43,67,250	
अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा फीस- III	2,69,71,650	
विदेशी विधि डिग्री धारण करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से फीस	1,47,000	50,000
योग	4,14,85,900	2,90,96,637

## अनुसूची - 12

## ब्याज से आय

	चालू वर्ष	(रुपए में) पूर्व वर्ष
सावधिक निक्षेपों पर ब्याज	1,27,50,764	99,83,380
ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	64,510	66,069
योग	1,28,15,274	1,00,49,449

## भारतीय विधिज्ञ परिषद्

## अनुसूची - 13

## वेतन, भत्ते और कर्मचारी सुविधाएं

	चालू वर्ष	(रुपए में) पूर्व वर्ष
स्थापन/वेतन	1,14,44,888	1,04,88,985
चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	3,30,561	3,13,119
बोनस	96,712	48,356
छुट्टी नगद भुगतान	5,09,957	5,87,083
छुट्टी यात्रा रियायत	42,714	42,553
उपदान निधि खाते में परिषद् का अभिदाय	4,75,394	-
पेंशन निधि खाते में परिषद् का अभिदाय	84,54,468	17,91,214
(देखिए : अनुसूची 18 का टिप्पण 4(i))		
स्टाफ को वाहन भत्ता	8,19,970	6,21,536
योग	2,21,74,484	1,38,92,846

39661/13-4

## भारतीय विधिज्ञ परिषद्

## अनुसूची - 14

## स्थापन और अन्य व्यय

	चालू वर्ष	(रुपए में) पूर्व वर्ष
शुल्क और कर	1,18,532	1,18,532
[देखिए : अनुसूची 18 का टिप्पण 1 (क)]		
मुद्रण और लेखन सामग्री	13,98,998	11,01,903
जल और विद्युत	8,95,459	10,22,833
विज्ञापन/राजपत्र अधिसूचना	1,26,750	2,41,750
डाक महसूल, तार और टेलीफोन	7,81,921	7,38,845
साधारण मरम्मत	3,88,728	5,15,139
न्यायालय कार्यवाहियां/वृत्तिक व्यय	9,60,503	1,94,891
पत्र पत्रिकाएं और जर्नल	2,970	2,636
लेखा परीक्षा फीस	44,120	44,115
बैंक प्रभार	12,842	10,149
प्रकीर्ण व्यय	6,21,701	6,60,941
राज्य विधिज्ञ परिषदों को अभिदाय	5,44,116	2,00,000
भा.वि.प. न्यास को अभिदाय	42,50,000	35,40,000
संगोष्ठी और सेमीनार व्यय	11,41,209	9,05,613
सम्मान समारोह व्यय	2,22,132	2,36,163
वृत्तिक विकास व्यय	-	11,25,387
इंटरनेशनल बार एसोसिएशन को चंदा	1,20,475	4,30,032
सुरक्षा प्रभार	4,86,106	3,97,124
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को चंदा	22,060	22,060
बीमा प्रीमियम	65,721	32,272
भवन अनुज्ञप्ति फीस पर सेवा कर	-	42,766
अवसूलनीय टीडीएस जो मुजरा किया गया	-	7,25,695
कार्यालय स्थानांतरण खर्च	-	1,01,200
किराया और दलाली - ओखला कार्यालय	-	43,53,174
योग	1,22,04,343	1,67,63,220

## भारतीय विधिज्ञ परिषद्

## अनुसूची - 15

## परिषद् के कार्यकलापों और बैठकों पर व्यय

	(रुपए में)	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
यात्रा - परिषद्	55,88,836	64,92,069
यात्रा - अनुशासन समिति बैठक	79,80,893	23,20,497
यात्रा - निरीक्षण	20,02,792	44,59,525
यात्रा - विधि शिक्षा बैठक	5,42,875	5,12,930
बैठक व्यय	5,51,825	8,86,938
योग	<u>1,66,67,221</u>	<u>1,46,71,959</u>

## अनुसूची - 16

## परीक्षा व्यय

	(रुपए में)	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अखिल भारतीय बार परीक्षा व्यय (ए.आई.बी.ई.-1) रेनमेकर	2,83,18,500	1,99,27,800
राज्य विधिज्ञ परिषदों को परीक्षा व्यय का अंश	35,38,800	22,28,900
विज्ञापन	-	5,88,658
मुद्रण और लेखन सामग्री	-	9,180
डाक महसूल	-	49,511
वेब सर्वर व्यय	2,15,085	1,78,686
विदेशी परीक्षा व्यय (आई.एन.एच.एफ.एल.डी.)	6,000	10,880
योग	<u>3,20,78,385</u>	<u>2,29,93,615</u>

भारतीय विधिज्ञ परिषद्  
अनुसूची - 17  
विधि शिक्षा निदेशालय व्यय

	चालू वर्ष	(रुपए में) पूर्व वर्ष
वेतन और भत्ते	8,29,700	18,50,655
अध्येताओं को मानदेय	1,90,000	7,78,065
बैंक प्रभार	726	655
सम्मेलन व्यय	-	11,355
वाहन व्यय	31,190	80,198
सामान्य मरम्मत	-	4,000
प्रकीर्ण व्यय	1,335	29,119
डाक महसूल	64,278	24,247
यात्रा व्यय	77,949	34,362
मुद्रण और लेखन सामग्री	23,445	1,05,134
टेलीफोन व्यय	12,240	18,640
योग	<u>12,30,863</u>	<u>29,42,430</u>



## भारतीय विधिज्ञ परिषद्

## अनुसूची - 18

## लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पण

[31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार]

## क. लेखाकरण नीतियां

## 1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपराओं के आधार पर बनाए गए हैं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लागू लेखाकरण मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं और जब तक अन्यथा कथित न हो, प्रोद्घवन आधार पर तैयार किए गए हैं।

## 2. राजस्व की प्राप्ति

आय और व्यय की प्रोद्घवन आधार पर मान्यता दी जाती है किंतु ;

(क) कल्याण निधि के लिए अभिदायों के आधार पर लेखागत किए जाने पर मान्यता दी जाती है।

(ख) विधि महाविद्यालयों के लिए निरीक्षण फीस और उनके व्यय को विधि महाविद्यालयों के निरीक्षण के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ग) अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) के लिए परीक्षा फीस और विदेशी विधि डिग्री धारण करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से परीक्षा फीस नकद प्राप्त होने के आधार पर मान्यता दी जाती है। परीक्षा फीस का एक विनिर्दिष्ट भाग जिसका विनिश्चित परिषद् द्वारा समय-समय पर किया जाता है, आगे राज्य विधिज्ञ परिषदों को किया जाता है।

(घ) एकीकृत पहचान पत्र विद्यार्थियों को जारी करने के लिए विधि महाविद्यालयों से प्राप्त फीस को पहचानपत्र जारी करने पर मान्यता दी जाती है।

(ड.) निवेश से आय

(1) सावधिक निक्षेप पर आय को बकाया राशि की रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए कालिक अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

396 GZ/13-5

(2) किसी विनिर्दिष्ट निधि से संबंधित ब्याज को तत्संबंधी निधि लेखाओं में जमा किया जाता है ।

### 3. सहायता अनुदान

(क) सरकारी अनुदानों को आय और व्यय लेखा में उन अवधियों पर जो संबंधित लागतों की जिनकी वे भरपाई करना चाहते हैं, अनुरूप होती हों, सुव्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है । अप्रयुक्त रकम को, यदि कोई हो, वर्ष के अंत में दायित्व के रूप में माना जाता है ।

(ख) विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियां से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय माना जाता है । जिसे लेखा में आस्तियों के उपयोगी होने तक व्यवस्थित और युक्तिमूलक आधार पर मान्यता दी जाती है ।

### 4. निधि

“निधि” शब्द का प्रयोग इस आशय को प्रगट करने के लिए किया गया है कि अतिशेष अंततः निवेश किए जाने के लिए रखे गए हैं :-

#### (i) मुख्य निधि

मुख्य निधि महाविद्यालयों और अन्य से प्राप्त दोनों को तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् की वार्षिक बचत/घाटा को व्यवदिष्ट करती है ।

#### (ii) कल्याण निधि

(क) कल्याण निधि से भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के अनुसार अधिवक्ताओं से प्राप्त अभिदाय को व्यवदिष्ट करती है ।

(ख) राज्य विधिज्ञ परिषदों से प्राप्त कल्याण निधि के 20% को प्रशासनिक व्ययों की वसूली के रूप में भारतीय परिषद् के आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है ।

### 5. स्थिर आस्तियां

स्थिर आस्तियों को अवक्षयण घटाकर ऐतिहासिक लागत पर बताया जाता है । इस प्रयोजन के लिए लागत में अर्जन जिसके अंतर्गत ऐसी आस्तियों के अर्जन/संनिर्माण से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क, कर और आनुषंगिक व्यय तथा प्रत्यक्ष व्यय भी हैं, सम्मिलित है ।

## 6. अवक्षयण

स्थिर आस्तियों पर अवक्षयण खुदरा मूल्य पद्धति के आधार पर आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन निहित दरों पर दिया जाता है।

## 7. निवेश

निवेश को “दीर्घकालिक निवेश” के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें लागत आधार पर अग्रणीत किया जाता है क्योंकि सभी निवेश अनुसूचित बैंकों में सावधिक निक्षेपों के रूप में रखे गए हैं।

## 8. सेवा निवृत्ति फायदे

### (i) पेंशन निधि

भारतीय विधिज्ञ परिषदों के कर्मचारियों पेंशन-सह-कुटुंब पेंशन नियम (तारीख 1 अप्रैल, 2002 से) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों पर लागू कर दिए गए हैं। तदनुसार, “भारतीय विधिज्ञ परिषद् अभिदायी भविष्य निधि” को बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पर पेंशन निधि आरंभ की गई है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अभिदायी भविष्य निधि में इसके पूर्व किए गए अभिदाय और उपगत ब्याज को पेंशन निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् आईसीएआई (ICAI) के आधार पर ऐसे दायित्वों के बिमांकक मूल्यांकन पर आधारित पेंशन निधि अभिदाय करती है।

### (ii) उपदान निधि

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने “उपदान निधि” नामक एक विशेष निधि रखी है। इस निधि में अभिदायी आईसीएआई के एस-15 के अनुसार बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। निधि परिषद् द्वारा नियुक्त न्यासियों द्वारा प्रशासित की जाती है।

### (iii) साधारण भविष्य निधि

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों के साधारण भविष्य निधि खाते में कर्मचारियों के चंदे की रकम, वेतन को लागू दर पर, उस पर उद्भूत ब्याज सहित जमा होती है।

(iv) छुट्टी के नगद भुगतान का, संदाय आधार पर, लेखाकरण किया जाता है।

## ख. लेखाओं पर टिप्पण

अस्वीकार नहीं किए गए समाश्रित दायित्वों को देनदारों के रूप में ब्यौरा :-

### 1. समाश्रित दायित्व

(क) दिल्ली नगर निगम ने अपने तारीख 23 मार्च, 2011 के पत्र के अनुसार राऊज एवेन्यु स्थित परिषद् के भवन के लिए संपत्ति कर की अतिरिक्त मांग 21,96,325/- रु. (जिसमें वर्ष 2010-2011 के लिए 4,39,267/- रु. भी सम्मिलित हैं) रखी है जो भवन को यूनिट एरिया दर पर वित्तीय वर्ष 2004-2005 से 2010-2011 तक संस्थान संबंधी संपत्ति के बदले व्यवसायिक संपत्ति मानकर निर्धारित की गई है। परिषद् ने इस पर आपत्ति की और इसलिए परिषद् के लेखाओं में कोई अतिरिक्त मांग नहीं की गई है।

(ख) ओखला परिसर की जिसे भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने तारीख 7 जून, 2010 के करार के अनुसार समाप्ति अवधि/नोटिस अवधि के पूर्व ही खाली कर दिया था, बाबत किराए की विवादग्रस्त मांग 84,00,264/- रु. की रकम है (जबकि 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार मकान मालिक के पास 10,20,275- रु- की रकम पड़ी हुई है)।

(ग) भवन कार्य के नवीनीकरण के लिए 31 मार्च, 2012 को यथाविद्यमान 49,24,333/- रु- रकम का विवादित बिल पूंजी में परिवर्तित/संगणित नहीं हुआ है।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग-क के नियम 3(1) के अधीन पत्र संख्या जेपी-1(6)/63/3332 तारीख 25 दिसंबर, 1965 (1965-1966 का आदेश सं. 1) के अनुसार, भविष्य निधि को मान्यता प्राप्त हुई है। तथापि, विधि को प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

3. पेंशन निधि की 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 4,06,67,493/- रु. हो गई है जबकि 2,69,92,703/- रु. की पेंशन निधि (जिसमें चालू वर्ष के लिए 100,23,033/- रु. की रकम भी सम्मिलित है) रखी गई है। इस प्रकार प्रावधान में कमी 1,36,74,790/- रुपए की है। प्रबंध मंडल ने वित्तीय वर्ष 2011-2012 से 46,30,115/- रु. की चार समान वार्षिक किस्तों में चालू वर्ष के लेखे में इसकी देनदारी के साथ पेंशन निधि की देनदारी के लिए प्रावधान करने का विनिश्चय किया है।

4. केनरा बैंक चालू खाता सं. 31467 (अखिल भारतीय बार परीक्षा के खाते में निक्षेप धन के लिए) वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए समाधान के अध्यक्षीन है। लेखा पुस्तकों के अनुसार बैंक में अतिशेष 1,97,29,955/-रु. डेबिट है और बैंक विवरण के अनुसार 1,93,68,185/- रु. क्रेडिट है। बैंक विवरण के अनुसार 3,61,770/-रु. कम का अंतर आता है जिसका समायोजन शीघ्र ही बैंक समाधान के पूर्व होने पर किया जाएगा।

5. अनुसूचित बैंकों के पास 31 मार्च, 2012 को सावधिक जमा रकमों में विधि महाविद्यालय से संबद्धता के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में प्राप्त 7,74,00,000/- रु.की रकम (जो 31 मार्च, 2011 को 7,25,00,000/-रु. की थी) अनुसूची-7 में सम्मिलित है।

6. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

सम संख्यांक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

एफआरएन000038एन

ह0/-

(एम. पी. ठाकुर)

भागीदार

एम.न. 052473

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 28 सितंबर, 2012

ह0/-

लेखाकार-सह-  
सहायक सचिव  
भा.वि.प.

ह0/-

लेखा अधिकारी-सह-  
सहायक सचिव  
भा.वि.प.

ह0/-

सचिव  
भा.वि.प.

ह0/-

अध्यक्ष  
भा.वि.प.

भारतीय विधि परिसद

जे. आर. शर्मा, सचिव

[ विज्ञापन-III/4/असाधारण/96/12 ]

396 GI/13-6

**BAR COUNCIL OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2012

**AUDITORS' REPORT**

[2011-2012]

**TO THE MEMBERS OF BAR COUNCIL OF INDIA****THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.**

Chartered Accountants

New Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai,

Patna and Chandigarh

1. We have audited the attached Balance Sheet of Bar Council of India as at 31st March, 2012 and also the Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Institution's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. Attention is invited on:  
*Note No. 4 of Schedule 18 regarding shortfall of provision for Pension Fund Liability amounting to Rs. 1,36,74,790 based on actuarial valuation as on 31-03-2012.*
4. Further to the above, we state that:
  - (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
  - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Council so far as appears from our examination of those books; and
  - (c) The statement of Financial Position and the Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.

386  
24

5. Subject to item contained in Paragraph (3) above, to which attention have been drawn and the consequential effect of adjustment on the value of assets, liabilities, the quantum of income and expenditure and their effect on the surplus for the year, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the Accounting Policies and Notes thereon, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:—

(a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Institution as at 31st March, 2012; and

(b) in the case of the Income and Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.

**for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.**

*Chartered Accountants*

FRN 000038N

Sd/-

**(M.P. Thakur)**

Partner

M.NO. 052473

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**BALANCE SHEET**  
(As at 31st March, 2012)

	<b><i>Schedule No.</i></b>	<b><i>As at 31-03-2012</i></b>	<b><i>As at 31-03-2011</i></b>
<b>Sources of Funds:</b>			
Corpus Fund	1	9,08,87,401	7,83,93,165
Earmarked Funds	2	12,27,99,186	10,64,60,501
Assets Fund ( Grant-In-Aid)	3	2,85,77,909	3,04,55,484
Loans & Advances		20,00,000	20,00,000
Security Deposits from Affiliated Institutions		7,74,00,000	7,25,00,000
Total		<u>32,16,64,496</u>	<u>28,98,09,150</u>
<b>Application of Funds:</b>			
Fixed Assets (Net Block)	4	4,44,49,026	61,31,326
Capital Work in Progress	5	-	3,11,63,287
Earmarked Investments	6	12,27,99,185	10,64,60,501
<b>Other Investments</b>			
Deposits with Scheduled Banks	7	15,40,60,232	13,09,16,833
<b>Current Assets, Loans &amp; Advances</b>	8	10,74,09,261	6,48,45,138
Less: Current Liabilities	9	<u>2,52,33,208</u>	<u>1,74,57,935</u>

& Provisions				
Net Current Assets	8,21,76,053		4,73,87,203	
Less: Inspection Fees				
Received in Advance	8,18,20,000	3,56,053	3,22,50,000	1,51,37,203
<b>Total</b>		<b>32,16,64,496</b>		<b>28,98,09,150</b>

**Accounting Policies and****Notes to Accounts 18**

Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts

*As per our Report of Even Date*

**BAR COUNCIL OF INDIA**

For **THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.**

*Chartered Accountants*

FRN 000038N

Sd/- (M.P. Thakur) Partner M.No. 052473	Sd/- Asstt. Secretary cum Accountant B.C.I.	Sd/- Asstt. Secretary cum Accounts Officer B.C.I.	Sd/- Secretary B.C.I.	Sd/- Chairman B.C.I.
--	---	---	-----------------------------	----------------------------

Place : New Delhi

Date : 28th September, 2012

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**  
*(For The Year Ended March, 31, 2012)*

	<b>Schedule No</b>	<b>Current Year Rs.</b>	<b>Previous Year Rs.</b>
<b>Income</b>			
Fees	10	90,70,351	1,25,30,798
Examination Fees	11	4,14,85,900	2,90,96,637
Inspection Fees		3,28,25,000	1,83,35,000
Grants-in-Aid		6,00,000	1,88,100
Building Licence Fee		-	12,46,667
Interest	12	1,28,15,274	1,00,49,449
Other Income		6,98,541	35,178
<b>TOTAL</b>		<b>9,74,95,066</b>	<b>7,14,81,828</b>
<b>Expenditure</b>			
Salaries and Allowances	13	2,21,74,484	1,38,92,846
Establishment and other Expenses	14	1,22,04,343	1,67,63,220
Expenses on Council's Activities & Mtgs.	15	1,66,67,221	1,46,71,959
Examination Expenses	16	3,20,78,385	2,29,93,615
Directorate of Legal Education Expenses	17	12,30,863	29,42,430
Donation of Law Books		1,90,000	1,90,000
Depreciation		34,72,392	12,63,329



Less: Amount Transferred From Assets Funds (Grants)	(-)	18,77,575	15,94,817	71,350	11,91,979
<b>TOTAL</b>			<b>8,61,40,113</b>		<b>7,26,46,049</b>
Less: Recovery From Welfare Fund			<b>11,39,284</b>		<b>15,88,502</b>
Towards Administration Expenses [ Refer 4(ii)(b) Schedule -18]			<b>8,50,00,829</b>		<b>7,10,57,547</b>
Surplus/Deficit for the Year Transferred to Corpus Fund			<b>1,24,94,237</b>		<b>4,24,281</b>

Accounting Policies &amp; Notes to Accounts 18

Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts

As per our Report of Even Date

**BAR COUNCIL OF INDIA**For **THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.**

Chartered Accountants

FRN 000038N

Sd/-  
(M.P. Thakur)  
Partner  
M.No. 052473

Sd/-  
Asstt. Secretary  
cum  
Accountant  
B.C.I.

Sd/-  
Asstt. Secretary  
cum  
Accounts Officer  
B.C.I.

Sd/-  
Secretary  
B.C.I.

Sd/-  
Chairman  
B.C.I.

Place : New Delhi

Date : 28th September, 2012

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**SCHEDULE 1 — CORPUS FUND**

	<i>As At</i> <i>31-03-2012</i>	<i>As At</i> <i>31-03-2011</i>
	Rs.	Rs.
Balance As Per Last Balance Sheet	7,83,93,165	7,79,68,883
Add: Surplus/Deficit for the Year	1,24,94,237	4,24,281
<b>TOTAL</b>	<b>9,08,87,401</b>	<b>7,83,93,165</b>

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**SCHEDULE 2 — EARMARKED FUNDS**

	<i>As At</i> <i>31-03-2012</i>	<i>As At</i> <i>31-03-2011</i>
	Rs.	Rs.
(i) <b>Welfare Fund</b>		
Balance as on 1-4-2011	7,65,93,637	
Less:		
Sundry Creditors-BCI	12,11,231	7,53,82,406
		6,57,93,430
Add:		
Contribution from State Bar Council	56,96,420	79,42,510

396 G.I/13-7

Interest Received	55,24,140		48,52,678	
Misc. Receipts	1,22,000		36,000	
	<u>1,13,42,560</u>		<u>1,28,31,188</u>	
Less : Assistance to Advocates	16,31,000		16,51,000	
Bank Charges	7,590		2,710	
Administration Expenses	<u>11,39,284</u>		<u>15,88,502</u>	
As per Income & Expenditure A/c.		85,64,686		95,88,976
Sundry Creditors -BCI		<u>7,03,117</u>		<u>12,11,231</u>
		8,46,50,209		7,65,93,637
<b>(ii) Provident Fund</b>				
As per Last Balance Sheet	64,78,639		61,43,563	
Add: Employees Subscription	4,85,300		4,71,214	
Add: Employees Voluntary Subscription	7,60,500		7,14,000	
Add: Interest Received	<u>4,26,069</u>		<u>4,03,197</u>	
	81,50,508		77,31,974	
Less: Payment during the year	(-) <u>13,92,807</u>	67,57,701	<u>12,53,335</u>	64,78,639
<b>(iii) Gratuity Fund</b>				
As per Last Balance Sheet	50,65,545		54,95,838	
Add: Amount Received from the Council for 2011-2012			4,32,039	
Add: Interest Received	3,30,640		2,49,283	
Less: Payment to Members	(-) <u>9,97,612</u>	43,98,573	<u>11,11,615</u>	50,65,545
<b>(iv) Pension Fund</b>				
As per Last Balance Sheet	1,83,22,681		1,64,47,681	
Add: Contribution/Provision	84,54,468		17,91,214	
[Refer Note No. (4) of Schedule-18]				
Add: Interest Received	<u>15,67,565</u>		<u>10,48,458</u>	
	2,83,44,714		1,92,87,353	
Less: Payments to Ex-members/ Dependents	<u>13,52,011</u>	2,69,92,703	<u>9,64,672</u>	1,83,22,681
<b>TOTAL</b>		<u><u>12,27,99,186</u></u>		<u><u>10,64,60,501</u></u>

### BAR COUNCIL OF INDIA SCHEDULE 3 — *ASSETS FUND (Grants-in-Aid)*

	<i>As at 31-03-2012</i>	<i>As at 31-03-2011</i>
	Rs.	Rs.
Balance as on 1-4-2011	3,04,55,484	1,78,26,834
Add: Grant-in-aid received from Ministry of Law and Justice, Legal Departments Government of India, New Delhi	-	1,27,00,000
	<u>3,04,55,484</u>	<u>3,05,26,834</u>
LESS: Amount of depreciation for the year	18,77,575	71,350
<b>TOTAL</b>	<u><u>2,85,77,909</u></u>	<u><u>3,04,55,484</u></u>

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**SCHEDULE 4 — FIXED ASSETS (OWN FUNDS)**  
**Part-A**

(Amount in Rs.)												
S.No.	Particulars	Rate of Depreciation (% P.A.)	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
			As At 1/4/2011 (1)	Additions/ Deletions (2)	Sale/ Exchange/ Adjustment (3)	As At 31/03/2012 (4) = (1) + (2) - (3)	As At 01/04/2011 (5)	For the Year 2011-2012 (6)	Depreciation Adjusted (7)	As At 31-03-2012 (8) = (5) + (6) - (7)	As At 31-03-2012 (9) = (4) - (8)	As At 01-04-2011 (10)
1.	Land	-	42,030	-	-	42,030	-	-	-	-	42,030	42,030
2	Building	10%	1,50,47,055	26,71,998	-	1,77,19,053	1,22,95,388	4,08,769	-	1,27,04,137	50,14,916	27,51,687
3	Lift	15%	6,95,362	-	-	6,95,362	6,78,558	2,520	-	6,81,078	14,284	16,804
4	Furniture & Fittings	10%	13,70,440	23,62,056	-	37,32,496	7,42,301	1,95,533	-	9,37,834	27,94,662	6,28,139
5	Electrical Fittings	10%	3,01,178	9,59,449	-	12,60,627	2,19,882	66,451	-	2,86,333	9,74,294	81,296
6	Office Equipments	15%	6,11,345	28,250	-	6,39,595	3,81,171	36,645	-	4,17,816	2,21,779	2,30,174
7	Air Conditioner/Cooler	15%	4,31,118	46,35,577	-	50,66,695	3,36,648	3,61,838	-	6,98,486	43,68,209	94,470
8	Refrigerator/Gas	15%	34,480	-	-	34,480	21,883	1,890	-	23,773	10,707	12,597
9	Office Cycles	15%	5,231	-	-	5,231	2,019	482	-	2,501	2,730	3,212
10	Books & Publications	100%	1,22,972	-	-	1,22,972	1,22,972	-	-	1,22,972	-	-
11	D.G.Set	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Computers	60%	16,63,022	95,978	-	17,59,000	13,24,584	2,53,150	-	15,77,734	1,81,266	3,38,438
13	Water Cooler	15%	1,10,948	-	-	1,10,948	51,975	8,846	-	60,821	50,127	58,973
14	Transformer	15%	10,69,846	-	-	10,69,846	9,20,688	22,374	-	9,43,062	1,26,784	1,49,158
15	Fire Fighting Equipment	15%	13,66,550	5,47,138	-	19,13,688	11,33,611	75,976	-	12,09,587	7,04,101	2,32,939
16	Digital Camera	15%	11,850	-	-	11,850	3,931	1,188	-	5,119	6,731	7,919
17	CCTV	15%	-	80,737	-	80,737	-	6,055	-	6,055	74,682	-
18	Innova Car	15%	12,00,788	-	-	12,00,788	1,80,118	1,53,100	-	3,33,218	8,67,570	10,20,670
	Total (A)		2,40,84,215	1,13,81,183	-	3,54,65,398	1,84,15,710	15,94,817	-	2,00,10,527	1,54,54,871	56,68,505
	Previous Year		2,23,50,340	17,33,875	-	2,40,84,215	1,72,23,731	11,91,979	-	1,84,15,710	56,68,505	

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**SCHEDULE 4 — FIXED ASSETS (Grants-In-Aid)**  
**Part-B**

S.No.	Particulars	Rate of Depreciation (% P.A.)	GROSS BLOCK			DEPRECIATION				NET BLOCK		
			As At 01/04/2011 (1)	Additions/ Deletions (2)	Adjustment	As At 31/03/2012 (3)=(1)+(2)	As At 01/04/2011 (4)	For the Year 2011-2012 (5)	Adjustment	As At 31-03-2012 (6)=(4)+(5)	As At 31-03-2012 (7)=(3)-(6)	As At 31-03-2011 (8)
1	Building Renovation	10%	4,10,297	2,22,55,685	-	2,26,65,982	1,28,866	11,40,927	-	12,69,793	2,13,96,189	2,81,431
2	Furniture & Fittings	10%	1,84,625	-	-	1,84,625	69,444	11,518	-	80,962	1,03,663	1,15,181
3	Air Conditioner/Cooler	15%	1,05,746	31,89,383	-	32,95,129	51,321	2,47,368	-	2,98,689	29,96,440	54,425
4	Books & Publications	100%	2,86,904	-	-	2,86,904	2,86,904	-	-	2,86,904	-	-
5	Computers	60%	5,68,674	4,10,000	-	9,78,674	5,58,890	2,50,070	-	8,06,960	1,71,714	11,784
6	Electrical Fitting	10%	-	45,53,841	-	45,53,841	-	2,27,692	-	2,27,692	43,28,149	-
	Total B		15,56,246	3,04,08,909	-	3,19,65,155	10,93,425	18,77,575	-	29,71,000	2,89,94,155	4,62,821
	Previous Year		15,56,246	-	-	15,56,246	10,22,075	71,350	-	10,93,425	4,62,821	-
	Total (A+B)		2,58,40,461	4,17,90,092	-	6,74,30,553	1,95,09,135	34,72,392	-	2,29,81,527	4,44,49,026	61,31,326
	Previous Year		2,39,06,586	17,33,875	-	2,56,40,46,082	1,82,45,806	12,63,329	-	1,95,09,135	61,31,326	56,60,780
<b>SCHEDULE 5</b>												
	Capital -Work-In-Progress* (Building Renovation)		3,11,63,287	5,18,492	3,92,81,779	-	-	-	-	Nil	Nil	

\* Transferred to Fixed assets Grants Funds Rs. 2,99,98,909 & Fixed Assets own funds Rs. 92,82,870.

## BAR COUNCIL OF INDIA

### SCHEDULE 6 — *EARMARKED INVESTMENTS*

	As At 31-03-2012	As At 31-03-2011
	Rs.	Rs.
<b>(i) Welfare Fund Investments</b>		
Balance In UCO Bank-Savings A/c.9363	9,14,684	3,40,704
Fixed Deposit with UCO Bank	3,04,19,329	3,04,19,329
Fixed Deposit with Central Bank	35,27,418	35,27,418
Fixed Deposit with S.B.I	1,41,40,786	1,33,65,553
Fixed Deposit with Syndicate Bank	1,86,27,655	1,66,27,655
Fixed Deposit with Allahabad Bank	73,62,184	64,60,789
Accrued Interest	91,41,146	53,60,883
Sundry Debtors -BCI	5,17,007	4,91,306
	8,46,50,209	7,65,93,637
<b>(ii) Provident Fund Investment</b>		
Balance in UCO Bank S.B.A/c. 261025	10,47,501	14,06,394
Special Deposit -UCO Bank	11,90,217	11,90,217
FDR-UCO Bank	17,55,548	17,55,548
Fixed Deposit with Syndicate Bank	19,75,651	14,75,651
P.F.Loan	2,46,212	3,61,442
Accrued Interest	5,20,480	2,67,295
Due From Bar Council of India	22,092	22,092
	67,57,701	64,78,639
<b>(iii) Gratuity Fund Investment</b>		
Balance In UCO Bank- Savings A/c. 440	1,58,408	10,90,728
Special Deposit - UCO Bank	3,18,433	3,18,433
Fixed Deposit With UCO Bank	34,33,927	34,33,927
Accrued Interest	4,68,005	2,02,657
Due from Bar Council of India	19,800	19,800
	43,98,573	50,65,545
<b>(iv) Pension Fund Investment</b>		
Balance in Canara Bank S.B. A/c. 19116	10,42,801	4,14,240
Fixed Deposit -Syndicate Bank	38,00,000	38,00,000
Fixed Deposit - Central Bank	36,89,533	36,89,533
Fixed Deposit - Canara Bank	73,42,830	58,63,701
Fixed Deposit -Allahabad Bank	5,39,838	5,39,838
Fixed Deposit UCO Bank	13,07,011	13,07,011
Sundry Debtors-BCI	78,01,568	-
Accrued Interest	13,93,502	13,68,943
Due from Bar Council of India (TDS)	75,620	12,47,600
Sundry Debtors-Syndicate Bank	-	91,815
	2,69,92,703	1,83,22,681
<b>TOTAL</b>	<b>12,27,99,185</b>	<b>10,64,60,501</b>

396 GI/13-8

## BAR COUNCIL OF INDIA

### SCHEDULE 7 — *OTHER INVESTMENTS*

	<u>As at 31-03-2012</u>	<u>As at 31-03-2011</u>
	Rs.	Rs.
<b>(A) FIXED DEPOSITS WITH BANKS</b>		
<b>FOR BAR COUNCIL OF INDIA</b>		
Allahabad Bank	1,00,27,388	92,05,547
Central Bank	74,14,961	74,14,961
Canara Bank	2,02,75,485	1,57,38,189
UCO Bank	1,11,88,768	1,11,88,768
Syndicate Bank	1,53,96,500	73,96,500
State Bank of India	49,85,783	32,85,783
	<u>6,92,88,885</u>	<u>5,42,29,748</u>
<b>(B) FOR SECURITY DEPOSIT FROM LAW COLLEGES (AFFILIATION)</b>		
Canara Bank	2,20,61,592	1,84,63,639
Central Bank	72,44,878	72,44,878
UCO Bank	1,23,83,260	1,23,83,260
State Bank of India	1,00,07,368	1,17,07,368
Syndicate Bank	2,07,81,700	1,50,81,700
Allahabad Bank	1,22,92,549	1,18,06,240
	<u>8,47,71,347</u>	<u>7,66,87,085</u>
<b>TOTAL</b>	<u><u>15,40,60,232</u></u>	<u><u>13,09,16,833</u></u>

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**SCHEDULE 8 — CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES**

	<i>As At</i> <i>31-03-2012</i>	<i>As At</i> <i>31-03-2011</i>
	Rs.	Rs.
<b>A) Stock of Books at Cost</b>	4,39,566	89,625
(As Certified by the Management)		
<b>B) Cash &amp; Bank Balances</b>		
Cash in Hand (16664+35266.25)	51,930	1,11,066
Canara Bank-31050	3,94,71,927	82,33,378
UCO Bank -132	24,12,347	11,96,749
Canara Bank-31065(LEF)	75,40,181	18,10,368
Canara Bank-31313(Grants)	4,909	6,04,909
Canara Bank 31467(AIBE)	1,97,29,955	97,12,495
Syndicate Bank 24171010000239 (Grants)	4,55,505	80,05,733
Syndicate Bank 24171010000258 (DLE)	1,19,909	8,65,882
In SB A/c with Scheduled Banks in Different States	1,40,30,482	1,17,74,707
	8,39,17,145	4,23,15,287
<b>C) Amount Receivable</b>		
i) Interest Accrued on Investments	1,59,32,103	1,36,31,305
ii) From State Bar Councils	81,314	81,314
iii) Sundry Debtors-Trust	72,394	56,633
iv) Sundry Debtors-Welfare Fund	7,03,117	12,11,231
v) Amount Receivable- Bar Association	-	1,03,000
vi) Amount Receivable-Banks	-	7,86,667
vii) Amount Receivable-Contractors	-	1,34,226
	1,67,88,928	1,60,04,376
<b>D) Loans &amp; Advances</b>		
i) Loan to Staff	7,20,751	7,67,475
(Housing, Marriage, Education & Others)		
ii) Advances—Members	2,70,217	4,42,028
— Staff	3,26,149	2,53,370
— Others	54,940	91,940
iii) Prepaid Expenses	1,49,203	79,146
iv) Prepaid Expenses-G.F.Contribution	-	4,32,039
v) Security Deposits for Electricity & Others	12,30,417	12,30,417
vi) Security Deposit-Office Rent	20,40,550	20,40,550
vii) TDS Interest on FDR	14,71,395	10,09,885
	62,63,622	64,35,850
<b>TOTAL</b>	<b>10,74,09,261</b>	<b>6,48,45,138</b>

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**SCHEDULE 9—CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS**

	<i>As at</i> <i>31-03-2012</i>	<i>As at</i> <i>31-03-2011</i>
	Rs.	Rs.
Gratuity Fund Contribution Payable	43,355	-
Pension Fund Contribution Payable	78,01,568	-
D.C. Deposit Fees	15,92,765	11,47,765
Unutilised Grant-In-Aid From Law Ministry	-	6,00,000
Due To Welfare Fund	5,17,007	4,91,306
Due To Pension Fund	75,620	12,47,600
Earnest Money ( Contractors)	2,00,000	2,00,000
Security Deposit( Contractors)	15,63,160	8,04,567
Rent Payable	10,20,275	10,20,275
Sundry Creditors -AIBE-I (STBC)	36,12,100	22,28,900
Sundry Creditor-Rainmaker	-	5,88,658
Sundry Creditors -Others	1,54,106	1,85,955
Due To Gratuity Fund	19,800	19,800
Due To Provident Fund	22,092	22,092
Advance Fee For Uniform Identification Numbers	9,43,200	7,74,200
Bill Payable (Net Advance Of Rs. 51,50,000)	-	81,26,817
Labour Cess	3,72,470	-
Sundry Creditors (Contractors & Architects)	68,75,595	-
TDS Payable (Contractors)	2,30,496	-
TDS Payable (D-VAT)	1,89,599	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,52,33,208</b>	<b>1,74,57,935</b>

**SCHEDULE 10 — FEES**

	<i>Current</i> <i>Year</i>	<i>Previous</i> <i>Year</i>
	Rs.	Rs.
<b>I. Fees From Advocates</b>		
Enrolment Fees	76,16,663	1,07,86,959
Membership Transfer Fees	6,68,020	7,72,375
Resumption of Practice Fees	20,500	36,475
	<b>83,05,183</b>	<b>1,15,95,809</b>
<b>II. Other Fees</b>		
Disciplinary Proceeding Fees	1,04,920	1,12,825
Revision Fees	39,440	37,860
Legal Education Form Application Fees	5,56,300	7,25,000
Misc. Fees	64,508	59,304
	<b>7,65,168</b>	<b>9,34,989</b>
<b>TOTAL (I &amp; II)</b>	<b>90,70,351</b>	<b>1,25,30,798</b>



**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**SCHEDULE 11 — EXAMINATION FEES**

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
I. All India Bar Examination Fees-I	----	2,90,46,637
All India Bar Examination Fees-II	1,43,67,250	----
All India Bar Examination Fees-III	2,69,71,650	----
Fees From Indian National Holding Foreign Law Degree	1,47,000	50,000
	<u>4,14,85,900</u>	<u>2,90,96,637</u>

**SCHEDULE 12 — INTEREST INCOME**

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
Interest on Fixed Deposits	1,27,50,764	99,83,380
Interest on Loans & Advances	64,510	66,069
	<u>1,28,15,274</u>	<u>1,00,49,449</u>

**SCHEDULE 13 — SALARIES, ALLOWANCES &  
EMPLOYEE BENEFITS**

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
Establishment/Salaries	1,14,44,888	1,04,88,985
Medical Reimbursement Expenses	3,30,561	3,13,119
Bonus	96,712	48,356
Leave Encashment	5,09,957	5,87,083
Leave Travel Concession	42,714	42,553
Council Cont.to Gratuity Fund.A/c	4,75,394	----
Council Cont. to Pension Fund A/c.	84,54,468	17,91,214
[Refer Note 4(i) of Schedule 18]		
Staff Conveyance	8,19,790	6,21,536
	<u>2,21,74,484</u>	<u>1,38,92,846</u>

396 GI/13-9

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**SCHEDULE 14 — ESTABLISHMENT & OTHER**  
**EXPENSES**

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
Rates & Taxes	1,18,532	1,18,532
[Refer Note 1(A) of Schedule 18 ]		
Printing & Stationery	13,98,998	11,01,903
Water & Electricity	8,95,459	10,22,833
Advt./Gazette Notification	1,26,750	2,41,750
Postage, Telegram & Telephone	7,81,921	7,38,845
General Repairs	3,88,728	5,15,139
Court Proceeding/Professional Expenses	9,60,503	1,94,891
Periodical & Journal	2,970	2,636
Audit Fees	44,120	44,115
Bank Charges	12,842	10,149
Miscellaneous Expenses	6,21,701	6,60,941
Contribution to State Bar Councils	5,44,116	2,00,000
Contribution to Bar Council of India Trust	42,50,000	35,40,000
Conference and Seminar Expenses	11,41,209	9,05,613
Felicitatation Expenses	2,22,132	2,36,163
Professional Development Expenses	----	11,25,387
Subscription to International Bar Association	1,20,475	4,30,032
Security Charges	4,86,106	3,97,124
Subscription to India International Centre	22,060	22,060
Insurance Premium	65,721	32,272
Service Tax on Building Licence Fee	----	42,766
Unrecoverable TDS Written Off	----	7,25,695
Office Shifting Exp.	----	1,01,200
Rent & Brokerage - Okhla Office	----	43,53,174
<b>TOTAL</b>	<b>1,22,04,343</b>	<b>1,67,63,220</b>

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**SCHEDULE 15 — EXPENSES ON COUNCIL'S**  
**ACTIVITIES & MEETINGS**

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
Travelling -- Council	55,88,836	64,92,069
Travelling -- D.C. Mtg.	79,80,893	23,20,497
Travelling -- Inspection	20,02,792	44,59,525
Travelling -- LE Mtg.	5,42,875	5,12,930
Meeting Expenses	5,51,825	8,86,938
<b>TOTAL</b>	<b>1,66,67,221</b>	<b>1,46,71,959</b>

**SCHEDULE 16 — EXAMINATION EXPENSES**

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
All India Bar Examination Expenses	2,83,18,500	1,99,27,800
(AIBE-I) Rain Maker		
Share of Expenses State Bar Councils	35,38,800	22,28,900
Advertisement	---	5,88,658
Printing and Stationery	---	9,180
Postage	---	49,511
Web Server Expenses	2,15,085	1,78,686
Foreign Examination Expenses (INHFLD)	6,000	10,880
<b>TOTAL</b>	<b>3,20,78,385</b>	<b>2,29,93,615</b>

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**SCHEDULE 17 — *DIRECTORATE OF LEGAL***  
***EDUCATION EXPENSES***

	<i>Current Year</i>	<i>Previous Year</i>
	Rs.	Rs.
Salaries and Allowances	8,29,700	18,50,655
Honorarium to Fellows	1,90,000	7,78,065
Bank Charges	726	655
Conference Expenses	---	11,355
Conveyance Expenses	31,190	86,198
General Repairs	---	4,000
Misc. Expenses	1,335	29,119
Postage	64,278	24,247
Travelling Expenses	77,949	34,362
Printing & Stationery	23,445	1,05,134
Telephone Expenses	12,240	18,640
<b>TOTAL</b>	<b>12,30,863</b>	<b>29,42,430</b>

**BAR COUNCIL OF INDIA**  
**SCHEDULE 18 — ACCOUNTING POLICIES & NOTES**  
**TO ACCOUNTS**

[As on 31st March, 2012]

**A. ACCOUNTING POLICIES :**

**1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

The Financial statements have been drawn up on historical cost convention and have been prepared in accordance with applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on accrual basis unless otherwise stated.

**2. REVENUE RECOGNITION**

Income and expenditure are recognised on accrual basis except the following:—

- (a) Contribution towards Welfare fund which is accounted for on receipt basis.
- (b) Inspection fee for Law colleges and expenses thereto is recognised on inspection of law colleges
- (c) Examination fees for All India Bar Examination (AIBE) and from Indian National Holding Foreign Law Degree is recognised on cash basis. Specific portion of Examination fees is further allocated to the State Bar Council as decided by the Council from time to time.
- (d) Fee received from Law Colleges for issue of Uniform Identity Cards to Students is recognised on issue of Identity Card.

**(e) INCOME FROM INVESTMENT**

- (i) Income on Fixed Deposit is recognised on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.
- (ii) Interest pertaining to a Specific Fund has been credited to the respective Fund Accounts.

**3. GRANT-IN-AID**

- (a) Government grants is recognised on a systematic basis in the Income and Expenditure Account over the periods necessary to match them with the

396 GI/13-10

related costs which they are intended to compensate. Unutilised amount, if any, is treated as liability as at the year end.

- (b) Government grants related to Specific Fixed Assets are treated as deferred income which is recognised in the account on a systematic and rational basis over the useful life of the assets.

#### **4. FUND**

The word “fund” has been used to denote the intention to keep the balances invested ultimately.

##### **(i) Corpus Fund**

Corpus Fund represents donations received from Law Colleges and others and annual surplus/deficit of the Bar Council of India.

##### **(ii) Welfare Fund**

- (a) Welfare Fund represents contribution received from Advocates in accordance with the Bar Council of India Rules.

- (b) 20% of Welfare Fund Contribution received from State Bar Councils is credited to Income & Expenditure Account of Bar Council of India as recovery of administrative expenses.

#### **5. FIXED ASSETS**

Fixed Assets are stated at historical cost less depreciation. For this purpose cost include acquisition is inclusive of inward freight, duties, taxes and incidental expenses & direct expenses related to acquisition/construction of such assets.

#### **6. DEPRECIATION**

Depreciation on Fixed Assets is provided on Written Down Value method, at the rates prescribed under the Income Tax Act, 1961.

#### **7. INVESTMENTS**

Investments have been classified as “long term investments” and are carried at cost since all the investments have been held in Fixed Deposits with Scheduled Banks.

#### **8. RETIREMENT BENEFITS**

##### **(i) Pension Fund**

Pension-cum-Family Pension Rules of the Employees of the Bar Council of India, (w.e.f. 1-04-2002) has been made applicable to the

employees of the Bar Council of India. Accordingly the "BCI-Contributory Provident Fund" has been discontinued and in its place Pension Fund has been introduced. The contribution made earlier by Bar Council of India to Contributory Provident Fund alongwith accrued interest has been transferred to the Pension Fund.

Bar Council of India makes Pension Fund contribution based on the actuarial valuation of such liabilities as per AS-15 on Employee Benefits issued by the ICAI.

**(ii) Gratuity Fund**

The Bar Council of India has maintained a special fund called "Gratuity Fund". Contribution to this fund is made based on the actuarial valuation as per AS-15 of the ICAI. The fund is administered by the Trustees appointed by the Council.

**(iii) G.P.F.**

General Provident Fund Account of the Employees of the Bar Council of India represent the amount of subscription of employees at the applicable rate of the pay together with accrued interest thereon.

(iv) The leave encashment is accounted for on payment basis.

## ***B. NOTES TO ACCOUNTS***

The details of contingent liabilities not acknowledged as debtors:

### **1. Contingent Liabilities:**

- (a) Municipal Corporation of Delhi vide letter dated 23-03-2011 has raised additional demand for Property-Tax for Council Building at Rouse Avenue amounting to Rs. 21,96,325 ( including Rs. 4,39, 267 for 2010-2011) by considering Unit Area rate for Commercial Property instead of Institutional Property from F.Y. 2004-2005 to 2010-2011. This has been disputed by the Council and hence provision for additional demand has not been made in the accounts of the Council.
- (b) Disputed Demand for rent in respect of Okhla premises vacated by the BCI before the lock in period/notice period in terms of the agreement vide dated 07.06.2010 amount to Rs.84,00,264 (amount lying with the landlord Rs. 10,20,275 as on 31-03-2012).
- (c) Disputed bills for renovation of Buildings work not capitalised/ accounted for amounts to Rs. 49,24,333/- as on 31-03-2012.

2. Provident Fund is recognised under rule 3(1) of the part -A of the IVth schedule of the Income Tax Act, 1961 vide letter No.JP-1(6)/63/3332 dated 25-12-1965 (order No. 1 of 1965-66). However the fund is not recognised by the Regional Provident Fund Commissioner.
3. The liability for Pension Fund based on actuarial valuation comes to Rs.4,06,67,493 as on 31-03-2012 against which provision in pension fund stood at Rs.2,69,92,703.00 (including Rs. 1,00,22,033.00 for Current year). Thus there is shortfall in provision by Rs. 1,36,74,790.00. As decided by the management provision for arrear pension fund liability in four equal yearly instalments of Rs. 46,30,115.00 *w.e.f.* financial year 2011-2012 alongwith the liability of the current year is made in the accounts.
4. Canara Bank Current A/c No. 31467 (for money deposited on A/c of All India Bar Examination) is subject to reconciliation for the F.Y. 2011-2012. The Balance in Bank as per Books of accounts is Rs. 1,97,29,955/- Dr. and balance as per Bank Statement is Rs. 1,93,68,185/- Cr. The difference comes to Rs. 3,61,770/- short in Bank Statement for which adjustment shall be made on completion of the Bank reconciliation shortly.
5. Fixed deposits with Scheduled Bank includes Rs. 7,74,00,000 on 31-03-2012 (Rs. 7,25,00,000 on 31-03-2011) received from Law Colleges as Security deposit for affiliation included in Schedule-7.
6. Previous year figures have been regrouped/reclassified wherever considered necessary Schedule referred above form an integral part of the accounts.

*As per our Report of even date*

for **Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.,**      **FOR BAR COUNCIL OF INDIA**

*Chartered Accountants*

FRN 000038N

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(M.P. Thakur)	Asstt. Secretary	Asstt. Secretary	Secretary	Chairman
Partner	cum	cum	B.C.I.	B.C.I.
M.No. 052473	Accountant	Accounts Officer		
	B.C.I.	B.C.I.		

Place : New Delhi

Date : 28th September, 2012

*Re...*  
J. R. SHARMA, Secy.

[ADVT.- III/4/Exty./96/12]